

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार जीवन और समानता के अधिकार का हस्सा: SC

चर्चा में क्यों?

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को शामिल करने के लिये अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का वसितार किया है।

मुख्य बिंदु:

- पीठ **ग्रेट इंडियन बस्टरड (GIB)** को वदियुत पारेषण लाइनों के कारण अपना आवास स्थान खोने से बचाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2021 के आदेश ने GIB के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **अनुच्छेद 21** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगति करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
 - ये अनुच्छेद **स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों** के खिलाफ अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने वाली सरकारी नीतियों व नियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन तथा संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।
- पर्यावरणीय समस्याओं को संवैधानिक बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण नरिणयः
 - **एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनियादी पर्यावरणीय तत्वों जैसे वायु, जल और मटिटी में कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये खतरनाक होगी अतः इसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता है।
 - **वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1995):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है और इसे गरमि के साथ जीवन के आनंद के लिये स्वच्छता तक वसितारित करता है।

ग्रेट इंडियन बस्टरड (GIB)

- **ग्रेट इंडियन बस्टरड (Ardeotis nigriceps)** राजस्थान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- पक्षी माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजातिमानी जाती है, जो चरागाह पारस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश** में यह प्रजातिकिम संख्या में पाई जाती है।
 - ये प्रजाति खतरे की स्थिति में है जिसके प्रमुख कारणों में ऊर्जा ट्रांसमिशन लाइनों के साथ टकराव/वदियुत-आघात से मृत्यु (Electrocution), शिकार (वर्तमान समय में पाकस्तान में प्रचलित), व्यापक कृषिवसितार के परिणामस्वरूप नविस स्थान में परिवर्तन और उसका ह्रास शामिल है।
- सुरक्षा की स्थितिः
 - **अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परशिषिट-1
 - **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसिमय (CMS):** परशिषिट-1
 - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-

पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संवैधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा
- अनुच्छेद 51A के खंड (g) में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-against-adverse-effects-of-climate-change-part-of-rights-to-life-and-equality-sc>

